



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 19—सितम्बर 25, 2009 (भाद्रपद 28, 1931)

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 19—SEPTEMBER 25, 2009 (BHADRA 28, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय भेषजी परिषद्

नई दिल्ली-110002, दिनांक 27 अगस्त 2009

सं. 17-1/2009-पी.सी.आई./16297-439--भारतीय भेषजी परिषद् के 8 और 9 अगस्त 2009 को सम्पन्न हुए 84वें अधिवेशन में पारित निम्नलिखित संकल्पों को भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 15 में विहित प्रावधानों के तहत राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है :--

भेषजी डिप्लोमा

प्रस्ताव संख्या 84/पी.सी.आई./1391

“(1) भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थान द्वारा संचालित डिप्लोमा फार्मैसी पाठ्यक्रम का, डिप्लोमा फार्मैसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं शैक्षणिक सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है :--

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सोमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश			
16/17-179/2003-पी.सी.आई. के.ई.एस. पॉलीटेक्निक (फॉर वूमैन), पी. डब्ल्यू. डी. ग्राउण्ड्स, विजयवाड़ा-520 002.	60	2011-2012	सचिव तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण राज्य समिति, बी.आर.के.आर. भवन, 7वां तल, टैक बन्द मार्ग, हैदराबाद-500063.
110/17-595/2003-पी.सी.आई. जी. पुला रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्मैसी, मेहदोपट्टनम, हैदराबाद-500 028.	60	2011-2012	-उपरोक्त-
184/17-490/1996-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक फॉर वूमैन, श्रीकाकुलम-532 005.	40	2011-2012	-उपरोक्त-
185/17-588/2003-पी.सी.आई. आदर्श कॉलेज ऑफ फार्मैसी, जी. कोथापल्ली-533 285 ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट	60	2011-2012	-उपरोक्त-

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
छत्तीसगढ़				
1/17-786/2007-पी.सी.आई. स्कूल ऑफ फार्मसी, चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज, लाल खदान, मस्तूरी रोड़, बिलासपुर - 495 004.		60	2005-2006 से 2010-2011 तक	निबन्धक छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, नोर्थ पार्क एवेन्यू, सैक्टर-8, भिलाई - 490 009.
17/17-752/2006-पी.सी.आई. रॉयल कॉलेज ऑफ फार्मसी, बिहाईन्ड पं० आर.एस. यूनिवर्सिटी कैम्पस, दुमर तालाब (मोहबा बाजार), पी.ओ. तातीबन्ध, रायपुर - 492 010.		60 (2007-2008 शै० सत्र के दौरान किए गये केवल छः अधिक दाखिलों को नियमित किया) (01.081 केन्द्रीय परिषद् की गोष्ठी मई 2008 द्वारा अनुमोदित)	2010-2011 (01.081 केन्द्रीय परिषद् गोष्ठी मई 2008 द्वारा अनुमोदित)	निबन्धक पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर - 492 010. (2004 तक) निबन्धक छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय, नोर्थ पार्क एवेन्यू, सैक्टर-8, भिलाई - 490 009. (2005-2006 शैक्षणिक सत्र से)
दिल्ली				
140/17-376/2009-पी.सी.आई. मीराबाई पॉलीटेक्निक, महारानी बाग, नई दिल्ली - 110 065.		20	2009-2010	निबन्धक तकनीकी शिक्षा समिति दिल्ली सरकार मुनी माया राम मार्ग, प्रेम बाड़ी पुल, नियर पीतमपुरा टी.वी. टावर, दिल्ली - 110 088.
गुजरात				
141/17-323/2001-पी.सी.आई. शांतिलाल शाह फार्मसी कॉलेज भावनगर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कैम्पस, गौरीशंकर लेक रोड़, भावनगर - 364 002.		40	2011-2012	निबन्धक भावनगर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर, गौरीशंकर लेक रोड़, भावनगर - 364 002. निबन्धक गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय द्वितीय तल, ए.सी.पी.सी. इमारत एल.डी. आभियांत्रिक महाविद्यालय परिसर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 015. (8 जुलाई 2008 को तथा आगे)
हिमाचल प्रदेश				
187/17-301/1994-पी.सी.आई. गवर्नमेन्ट पॉलीटेक्निक कॉलेज, रोहरू डिस्ट्रिक्ट शिमला - 171 207.		40 (2007-2008 शै० सत्र से 30 से 40 दाखिलों में वृद्धि)	2011-2012	निबन्धक हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा समिति, 287, सिविल लाईन, धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा - 176 215.

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
कर्नाटक				
2/17-138/2006-पी.सी.आई. बी.एल.डी.ई. एसोसिएशन कॉलेज ऑफ फार्मसी, इंजीनियरिंग कॉलेज कैम्पस, आश्रम रोड़, बीजापुर - 586 103.		60	2011-2012	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
3/17-447/2003-पी.सी.आई. दी ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ फार्मसी, सी.ए. साईट नम्बर 40, फर्स्ट फेस, जे.पी. नगर, बंगलौर - 560 078.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
19/17-271/2009-पी.सी.आई. एस.ई.एस. फार्मसी कॉलेज, बैलारी (डिस्ट्रिक्ट), श्रीगुप्पा - 583 121.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
20/17-445/2002-पी.सी.आई. बाश्वेश्वर कॉलेज ऑफ फार्मसी, शांतिनिकेतन एजुकेशनल कैम्पस, कामथाना रोड़, चिड्री, डिस्ट्रिक्ट बीदर - 585 403.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
111/17-18/06-पी.सी.आई. मनीपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साईंसिज, मनीपाल यूनिवर्सिटी, माधव नगर, मनीपाल - 576 104.		120	2011-2012	निबन्धक मनीपाल एक्डमी ऑफ हायर एजुकेशन (मानित विश्वविद्यालय), विश्वविद्यालय भवन, माधव नगर, मनीपाल - 576 104.
188/17-273/2003-पी.सी.आई. विश्वविद्यालय सम्मथे पी.बी. कॉलेज ऑफ फार्मसी, श्री पद्मा कॉमप्लेक्स, हैदराबाद रोड़, यादगिरी - 585 202.		60 (2009-2010 शै० सत्र से 40 से 60 दाखिलों में वृद्धि)	2009-2010	सदस्य-सचिव परीक्षा प्राधिकरण समिति कार्यालय, तृतीय तल, राजकीय भेषजी महाविद्यालय नं० 2, सुबह सर्कल डॉ. पी. कलिंगा राव मार्ग बंगलौर - 560 027.
189/17-466/2002-पी.सी.आई. आचार्य एण्ड बी.एम. रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्मसी, सोलादेवनाहल्ली, हेसारगट्टा रोड़, चिक्काबानावरा पोस्ट, बंगलौर - 560 090.		60	2011-2012	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
केरल				
21/17-539/2005-पी.सी.आई. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, ट्रीडा बिल्डिंग, चालाकुझी लैन, मैडिकल कॉलेज पी.ओ. थिरुवननथापुरम - 695 001.		60	2011-2012	अध्यक्ष डी.फार्म. परीक्षा समिति चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, मार्फत भेषजी विज्ञान महाविद्यालय, पी.ओ. मैडिकल कॉलेज, थिरुवननथापुरम - 695 011.
22/17-518/97-पी.सी.आई. सेन्ट जोसफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सेन्ट जोसफ्स हॉस्पिटल, मुट्टम चेरथला - 688 524.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
190/17-347/2006-पी.सी.आई. मलिक दीनार कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सीथानगोली, बेला पोस्ट, कसारगोड - 671 321.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
191/17-54/97-पी.सी.आई. टी.डी. मैडिकल कॉलेज, अलापूझा - 688 005.		40	2011-2012	- उपरोक्त -
मध्य प्रदेश				
192/17-778/2006-पी.सी.आई. डॉ० श्री आर.एम. सोजातिया इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी (डिप्लोमा इन फार्मेसी), भानपुरा, डिस्ट्रिक्ट मन्दसौर - 458 775.		60	2005-2006 से 2009-2010 तक	निबंधक राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एअरपोर्ट बाईपास रोड, गाँधी नगर भोपाल - 462 036.
महाराष्ट्र				
4/17-599/2004- पी.सी.आई. गौरीशंकर एजुकेशन सोसायटीज, जी ई एस कॉलेज ऑफ फार्मेसी (डी फार्म) लिम्ब, सर्वे नम्बर 989, एट एण्ड पोस्ट - लिम्ब, (पुणे - कोल्हापुर हाईवे), ता० एण्ड डिस्ट्रिक्ट सतारा - 415 015.		60	2011-2012	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
5/17-806/2007-पी.सी.आई. कृष्ण चेरिटेबल ट्रस्टस कृष्ण कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ताल्लुक कराड, डिस्ट्रिक्ट सतारा मल्हापुर - 415 110.		60	2006-2007 से 2010-2011 तक	- उपरोक्त -
143/17-654/2004-पी.सी.आई. बी.सी.वाई.आर.सी. इन्स्टीट्यूट ऑफ डी.फार्मेसी, ऑपोजिट टेलिफोन एक्सचेंज, नंदनवन, नागपुर - 440 009.		60	2011-2012	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
195/17-569/2006-पी.सी.आई. गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक, रत्नागिरी, नियर थिबा पैलेस, रत्नागिरी - 415 612.		30	2011-2012	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवदी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.
196/17-533/2002-पी.सी.आई. यवातमल जिला विकास समितिज पतालधमल बाधवानी कॉलेज ऑफ फार्मेसी गिरिजा नगर, धमनगाँव रोड़, यवातमल - 445 001.		60	2010-2011	- उपरोक्त -
197/17-816/2007-पी.सी.आई. यू.बी.के.डब्ल्यू. ट्रस्टस डी.फार्मेसी कॉलेज एट कुंजखेड़ा पोस्ट - रेल ताल्लुक कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद - 431 103.		60	2006-2007 से 2010-2011 तक	- उपरोक्त -
198/17-640/2004-पी.सी.आई. जामिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मोलगी रोड़, जामिया इस्लामिया इशांत उलूम, डिस्ट्रिक्ट नन्दूरबार - 425 415.		60	2011-2012	- उपरोक्त -
199/17-826/2008-पी.सी.आई. श्री गुरुदत्त शिक्षण संस्थाज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मनूर, ताल्लुक : कालवन, डिस्ट्रिक्ट नासिक - 423 501.		60	2006-2007 से 2010-2011 तक	- उपरोक्त -
201/17-819/2007-पी.सी.आई. महाराष्ट्र इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, (डी.फार्म.), आरमोरी रोड़, चौगान फटा ब्रह्मापुरी, डिस्ट्रिक्ट चन्द्रपुर - 441 206.		60	2006-2007 से 2010-2011 तक	- उपरोक्त -
202/17-815/2007-पी.सी.आई. जनकल्याण विकास मण्डलस स्व० लीलावती सतीश अवाई डी.फार्मेसी कॉलेज, होकर्ना टाण्डा, कुंखेड़, डिस्ट्रिक्ट नानडेड		60	2006-2007 से 2010-2011 तक	- उपरोक्त -
203/17-817/2007-पी.सी.आई. जयवंतराव सावंत इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, स० नम्बर 58, इन्द्रायानी नगर, हांडीवादी रोड़, हडापसर, पुणे - 58.		60	2006-2007 से 2010-2011 तक	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
243/17-893/2009-पी.सी.आई. कॉलेज ऑफ फार्मैसी, पोस्ट बॉक्स नम्बर 23, उदगिर - 413 517. डिस्ट्रिक्ट लातूर,		निम्नवत	केवल 1993-94 समूह में दाखिल	सचिव महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा समिति राजकीय बहुतकनीकी भवन तृतीय तल, 49, खेरवडी, अलि यावर जंग मार्ग, बान्द्रा (पू.) मुम्बई - 400 051.

1993-94 में भेषजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में दाखिल निम्नलिखित 19 विद्यार्थियों के दाखिलों को अनुमोदित किया -

क्रम संख्या	सीट क्रमांक	विद्यार्थी का नाम	पिता का नाम	विश्वविद्यालय पंजीकरण संख्या
01	288011	योदिकर गोसमोहिद्दीन	ओसमानसाब	93627498
02	622289	मोहसीन अहमद	इशान अहमद	93627415
03	638741	मेड अनिल	बालकृष्ण	93627685
04	635664	लभशेट्टर अभिजीत	अरविन्द	93627531
05	635661	चमले नितिन	नागनाथ	93627464
06	635682	सिद्दीकी मोहम्मद कुसेर	अब्दुल मलिक	93627827
07	635659	जाधव नरसिंह	गोविन्दराव	93627424
08	623923	भोसले संतोष	गोविन्दराव	93627602
09	623918	तमबोली जब्बर	हैदरसाब	93627451
10	623926	पाटिल रविन्द्र	अमरुतराव	93627630
11	622292	कोकादवर राहुल	श्रीरामराव	93627649
12	622300	चत्तालवर मंग्रानी	गोपालकृष्ण	93627895
13	622294	भोसले कृष्ण	दिगम्बरराव	93627747
14	288008	सोनदारे सतीश	निवसुतराव	93627624
15	288007	चन्डोले दिनेश	वसंतराव	93627611
16	643546	भालकिकर संजीवकुमार	गोविन्दराव	93627362
17	643545	मोहम्मद अब्दुल समद	मोहम्मद अब्दुल रशीद	93627350
18	643549	आया गोविन्द	लक्ष्मीकांत	93627406
19	643559	चिन्देवर अनिल	भगवतराव	93627522

उड़ीसा

205/17-667/2005-पी.सी.आई. कलिंगा इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, (के.आई.पी.एस.), एट नौशाही, नियर सिटी क्लिनिक, पी.ओ. बलिया, डिस्ट्रिक्ट बालासोर - 756 056.	60	2010-2011	सदस्य-सचिव, उड़ीसा राज्य भेषजी समिति (औषधि नियंत्रण निदेशालय भवन), डाकघर मान्नेश्वर, रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर - 751 017.
---	----	-----------	--

विषय-वस्तु संख्या/ मिसिल संख्या	संस्था का नाम	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
पंजाब				
113/17-803/2004-पी.सी.आई. वी.एम.एस. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अमृतसर रोड़, बटाला - 143 505 डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर		60	2011-2012	सचिव पंजाब राज्य तकनीकी शिक्षा एवम् औद्योगिक प्रशिक्षण समिति, प्लॉट नं० 1-ए, सेक्टर - 36-ए, चण्डीगढ़
207/17-616/2004-पी.सी.आई. रयात इन्स्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमा फार्मेसी एण्ड रयात इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी रेलमाजरा डिस्ट्रिक्ट नवनशहर		60	2011-2012	- उपरोक्त -
242/17-327/2006-पी.सी.आई. अकाल कॉलेज ऑफ डिप्लोमा फार्मेसी, गुरसागर, मस्तुआना साहिब, डिस्ट्रिक्ट संगरूर - 148 001.		60	2005-2006 से 2010-2011 तक	- उपरोक्त -

पश्चिम बंगाल

212/17-549/99-पी.सी.आई. कूच बेहार पॉलीटेक्निक, केशाब रोड़, पी.ओ. एण्ड डिस्ट्रिक्ट कूच बेहार - 736 101.	40	2010-2011	सचिव, पश्चिम बंगाल राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद् “कोलकाता कारिगरी भवन” द्वितीय तल, 110, एस.एन. बनर्जी रोड़, कोलकाता - 700 013.
---	----	-----------	---

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा उपरोक्त परीक्षा प्राधिकरण द्वारा, उपरोक्त सत्र तक आयोजित भेषजी डिप्लोमा परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

भेषजी डिग्री

प्रस्ताव संख्या 84/पी.सी.आई./1392

“(1) भेषजी अधिनियम 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (1) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् निम्नलिखित संस्थानों द्वारा संचालित डिग्री फार्मेसी पाठ्यक्रम का, डिग्री फार्मेसी की अनुमोदित परीक्षा में प्रवेश पाने के प्रयोजन के लिए उनके सामने अंकित संख्या एवं शैक्षणिक सत्र तक के संदर्भ में अनुमोदित घोषित करती है :-

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
आन्ध्र प्रदेश			
6/32-343/2009-पी.सी.आई. चालापाथी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, चालापाथी नगर, लैम, गुन्टूर - 522 034.	60	2011-2012	निबन्धक आचार्य नागार्जुना विश्वविद्यालय नागार्जुना नगर गुन्टूर - 522 510.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम भिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
28/32-375/06-पी.सी.आई. जी.आई.ई.टी. स्कूल ऑफ फार्मेसी, एन एच - 5, चैतन्य नगर, राजमुन्दी	60	2011-2012	निबन्धक आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेअर, विशाखापट्टनम - 530 063.
110/32-155/1998-पी.सी.आई. जी.पुला रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मेहदीपट्टनम हैदराबाद - 500 028.	60	2011-2012	निबन्धक ओसमानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद - 500 007.
145/32-368/06-पी.सी.आई. गोकाराजू रंगाराजू कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बाघुपल्ली, हैदराबाद - 500 072.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
146/32-370/2006-पी.सी.आई. माला रेड्डी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, मैसम्सगुडा, धूलापल्ली, पोस्ट बाया हकीमपैट, सिकन्दराबाद - 500 014.	60	2005-2006 से 2010-2011 तक	निबन्धक जवाहरलाल नेहरू तकनीकी विश्वविद्यालय, कुकटपल्ली हैदराबाद - 500 072.

छत्तीसगढ़

1/32-449/2008-पी.सी.आई.
स्कूल ऑफ फार्मेसी, चौकसे इंजीनियरिंग
कॉलेज, लाल खदान, मस्तूरी रोड,
बिलासपुर - 495 004.

60 2004-2005 से
2010-2011 तक निबन्धक
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानन्द
तकनीकी विश्वविद्यालय,
नोर्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-8,
भिलाई - 490 009.

गुजरात

32/32-440/07-पी.सी.आई.
सी.यू. शाह कॉलेज ऑफ फार्मेसी एण्ड
रिसर्च, सुरेन्द्रनगर अहमदाबाद हाईवे,
ऑपोजिट आई बी पी पेट्रोल पम्प,
वधवान सिटी - 363 030,
डिस्ट्रिक्ट सुरेन्द्रनगर

60 2004-2005 से
2010-2011 तक निबन्धक
सौराष्ट्र विश्वविद्यालय
कलावद रोड,
राजकोट - 360 005.
निबन्धक
गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय,
द्वितीय तल, ए.सी.पी.सी. इमारत
एल.डी. आभियांत्रिक महाविद्यालय
परिसर, नवरंगपुरा,
अहमदाबाद - 380 015.
(8 जुलाई 2008 से और आगे)

214/32-431/2009-पी.सी.आई.
रमनभाई पटेल कॉलेज ऑफ फार्मेसी,
(चाखतर इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी),
एट एण्ड पोस्ट : चंगा - 388 421,
ताल्लुक : पैटलैड, डिस्ट्रिक्ट आनंद

60 2004-2005 से
2010-2011 तक निबन्धक
गुजरात विश्वविद्यालय
नवरंगपुरा,
अहमदाबाद - 380 009.
निबन्धक
गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय,
द्वितीय तल, ए.सी.पी.सी. इमारत
एल.डी. आभियांत्रिक महाविद्यालय
परिसर, नवरंगपुरा,
अहमदाबाद - 380 015.
(8 जुलाई 2008 से और आगे)

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
215/32-260/2003-पी.सी.आई. रोफेल श्री जी.एम. बिलाखिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी, “रोफेल कैम्पस” वापी - नाम्हा रोड़, पी.बी. नम्बर 11, वापी (वेस्ट) - 396 191.	60	2010-2011	निबन्धक वीर नारमद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर, उधाना-मगदल्ला रोड़, सूरत - 395 007. निबन्धक गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय, द्वितीय तल, ए.सी.पी.सी. इमारत एल.डी. आभियांत्रिक महाविद्यालय परिसर, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380 015. (8 जुलाई 2008 से और आगे)

कर्नाटक

2/32-185/2004-पी.सी.आई. बी.एल.डी.ई. एसोशिएसन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इंजिनियरिंग कॉलेज कैम्पस, आश्रम रोड़, बीजापुर - 586 103.	60	2011-2012	निबन्धक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ “टी” ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
3/32-83/2006-पी.सी.आई. दी ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सी.ए. साईट नम्बर 40, फर्स्ट फेस, जे.पी. नगर, बंगलौर - 560 078.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
8/32-67/95-पी.सी.आई. नेशनल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बलराज उर्स रोड़, शिमोगा - 577 201.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
9/32-60/2006-पी.सी.आई. एन.जी.एस.एम. इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, थर्ड क्रॉस, विवेकानन्द रोड़, नन्थूर, मंगलौर - 575 005.	80	2011-2012	- उपरोक्त -
10/32-59/2002-पी.सी.आई. डॉ० एच.एल.टी. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कैंगल, चन्नापटना, बंगलौर - 571 502.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
34/32-48/06-पी.सी.आई. मराठा मण्डलस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 1007, मालमास्ति एक्सटेंशन, बैलगाम - 590 016.	40	2011-2012	- उपरोक्त -
35/32-87/01-पी.सी.आई. के.एल.ई. सोसायटीज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, विद्या नगर, हुबली - 580 031.	60	2011-2012	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
37/32-141/07-पी.सी.आई. श्री के.वी. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एम.जी. रोड़, डिस्ट्रिक्ट कोलार, चिक्बालापुर - 562 101.	60	2011-2012	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
38/32-310/2005-पी.सी.आई. शारदा विलास कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कृष्णमूर्तिपुरम, मैसूर - 570 004.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
39/32-51/99-पी.सी.आई. सेन्ट जोन्स फार्मेसी कॉलेज, नम्बर 6, 9 वां क्रॉस, सेकण्ड मैन, विजयनगर सेकण्ड स्टेज, बंगलौर - 560 040.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
118/32-94/2006-पी.सी.आई. सी.एन.के. रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, # 26, फर्स्ट मैन विजयानंदनगर, नियर पुलिस क्वार्टरस, नंदीनी लेआउट, बंगलौर - 560 060.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
121/32-82/99-पी.सी.आई. एच.के.ई. सोसायटीज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, महादेवप्पा, रामपुरे रोड़, गुलबर्गा - 585 105.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
150/32-77/2003-पी.सी.आई. श्री सिद्धगंगा एजुकेशन सोसायटीज श्री सिद्धगंगा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बी.एच. रोड़, तुमकूर - 572 102.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
151/32-306/2005-पी.सी.आई. श्रीनिवास कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वालाचिल, फरगीपेट पोस्ट, मंगलौर - 574 143.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
152/32-419/2007-पी.सी.आई. के.एल.ई. सोसायटीज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अंकोला, उत्तर कन्नड - 581 314.	60	2005-2006 से 2010-2011 तक	- उपरोक्त -
153/32-160/2006-पी.सी.आई. नारगुन्द कॉलेज ऑफ फार्मेसी, दत्तात्रेयनगर, सेकण्ड मैन, 100 फीट रोड़, रिंग रोड़, बी.एस.के थर्ड स्टेज, बंगलौर - 560 085.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
154/32-301/2005-पी.सी.आई. कर्नाटक कॉलेज ऑफ फार्मेसी, # 33/2, तिरुमनाहल्ली, हेगड़े नगर मैन रोड़, बंगलौर - 560 064.	60	2011-2012	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
189/32-191/99-पी.सी.आई. आचार्य एण्ड बी.एम. रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सोलादेवनाहल्ली, हेसारागटा रोड़, चिक्काबानावरा पोस्ट बंगलौर - 560 090.	60	2011-2012	निबंधक, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कर्नाटक, चतुर्थ "टी" ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर - 560 041.
217/32-561/2009-पी.सी.आई. ईस्ट पोआइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, # 147, बीदरहल्ली, विरगोनगर पोस्ट, बंगलौर - 560 049.	60	2004-2005 से 2010-2011 तक	- उपरोक्त -
218/32-348/2006-पी.सी.आई. के.एल.ई. सोसायटीज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, (जे०टी० कॉलेज कैम्पस), पोस्ट बॉक्स नम्बर 23, गदाग - 582 101.	60	2004-2005 से 2010-2011 तक	- उपरोक्त -
केरल			
155/32-304/2009-पी.सी.आई. दी डाले वीव कॉलेज ऑफ फार्मेसी एण्ड रिसर्च सेन्टर, पुनालाल पी.ओ., वाया पूवाचल, थिरुवनन्थापुरम - 695 575.	60	2011-2012	निबंधक, केरल विश्वविद्यालय, पालायम, थिरुवनन्थापुरम - 695 001.
156/32-349/2006-पी.सी.आई. नज़ारेथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ओथेरा पी.ओ., थिरुवल्ला - 689 546.	60	2011-2012	निबंधक, महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय, प्रियदर्शनी हिल्स पी.ओ. अथिरामपूझा कोट्टायम - 686 560.
157/32-319/2005-पी.सी.आई. निर्मला कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मुवट्टूपूझा, इनाकुलम डिस्ट्रिक्ट - 686 661.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
190/32-300/2005-पी.सी.आई. मलिक दीनार कॉलेज ऑफ फार्मेसी सीथानगोली, बेला पोस्ट, करारगोड - 671 321.	60	2011-2012	निबंधक, कन्नूर विश्वविद्यालय, मंगट्टू पैरम्बू, कल्लियासेरी कन्नूर - 670 562.
221/32-14/99-पी.सी.आई. कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, मैडिकल कॉलेज, थिरुवनन्थापुरम - 695 011.	60	2013-2014	निबंधक, केरल विश्वविद्यालय, पालायम, थिरुवनन्थापुरम - 695 001.
222/32-448/2008-पी.सी.आई. राजीव गाँधी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, मीलीयत (पी.ओ.), ट्रीकारीपुर, कसारगोड (डिस्ट्रिक्ट)-671 310.	60	2006-2007 से 2010-2011 तक	निबंधक, कन्नूर विश्वविद्यालय, मंगट्टू पैरम्बू, कल्लियासेरी कन्नूर - 670 562.
223/32-298/2009-पी.सी.आई. सेन्ट जैम्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी, रिवर बैंक, चालाकुडी - 680 307.	60	2011-2012	निबंधक, कालीकट विश्वविद्यालय कालीकट विश्वविद्यालय डाकघर, थेनहीपालेम डिस्ट्रिक्ट मालापुरम - 673 635.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
मध्य प्रदेश			
116/32-396/2007-पी.सी.आई. मंदसौर इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी नियर एम.आई.टी. कैम्पस, रेवास-देवड़ा रोड़, मंदसौर - 458 001.	60	2004-2005 से 2009-2010 तक	निबन्धक राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एअरपोर्ट बाईपास रोड़, गाँधी नगर भोपाल - 462 036.
117/32-397/2007-पी.सी.आई. श्री राम इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बी.फार्मेसी, आई.टी.आई. माधोताल, जबलपुर - 482 002.	60	2003-2004 से 2010-2011 तक	- उपरोक्त -
224/32-286/2004-पी.सी.आई. जी आर वाई इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, विद्या विहार, बोरान, खारगाँव - 451 228.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
253/32-415/2007-PCI स्कूल ऑफ फार्मेसी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला कैम्पस, रिंग रोड़, इन्दौर - 452 017.	60	2001-2002 से 2008-2009 तक	निबन्धक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, रविन्द्रनाथ टैगोर रोड़ इन्दौर - 452 017.
महाराष्ट्र			
11/32-57/2007-पी.सी.आई. शरद पवार कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वानाडोंगरी, हिंगना रोड़, नागपुर - 441 110.	60	2011-2012	निबन्धक दी राष्ट्रसंत तुकाडोजी महाराज, नागपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज प्रशासनिक परिसर, रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, नागपुर - 440 001.
12/32-135/2004-पी.सी.आई. डी.एस.टी.एस. मण्डलस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 1, जूले सोलापुर, बीजापुर रोड़, सोलापुर - 413 004.	60	2011-2012	निबन्धक सोलापुर विश्वविद्यालय, सोलापुर सोलापुर-पुणे हाईवे, केगाँव सोलापुर - 413 255.
43/32-421/07-पी.सी.आई. राजारामप्रबापू कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कासेगाँव, ताल्लुक वाल्वा, डिस्ट्रिक्ट सांगली - 415 404.	60	2005-2006 से 2010-2011 तक	निबन्धक शिवाजी विश्वविद्यालय, विद्यानगर कोल्हापुर - 416 001.
45/32-270/06-पी.सी.आई. एस.सी.एस.एस.सी. सीताबाई थिटे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बिहाईन्ड हुडको कॉलोनी, पुणे-नगर, बाई पास, ए/पी - शिरपुर (वोदनाडी) डिस्ट्रिक्ट पुणे - 412 210.	60	2010-2011	निबन्धक पुणे विश्वविद्यालय, गणेशखीण्ड पुणे - 411 007.
46/32-271/06-पी.सी.आई. श्री नेमीनाथ जैन ब्रह्माचार्याश्रम (जैन गुरुकुल), श्रीमान सुरेशदाद जैन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, (डिग्री), नेमीनगर, डिस्ट्रिक्ट सांगली - 415 404.	60	2011-2012	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
47/32-203/03-पी.सी.आई. श्रीमती किशोरीलाई भोयार कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बिहाईन्ड रेलवे स्टेशन, न्यू काम्पी, डिस्ट्रिक्ट नागपुर - 441 002.	60	2011-2012	निबन्धक दी राष्ट्रसंत तुकाडोजी महाराज, नागपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज प्रशासनिक परिसर, रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, नागपुर - 440 001.
48/32-18/04-पी.सी.आई. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, राष्ट्रसंत तुकाडोजी महाराज, नागपुर यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले शैक्षणिक परिसर, अमरावती रोड़, नागपुर - 440 003.	60	2013-2014	- उपरोक्त -
49/32-134/04-पी.सी.आई. भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सैक्टर - 8, सी.बी.डी. नवो मुम्बई - 400 614.	60	2013-2014	निबन्धक मुम्बई विश्वविद्यालय, कलिना, सांताक्रूज, (पू.), फोर्ड, मुम्बई - 400 032.
50/32-50/2006-पी.सी.आई. जनता शिक्षण प्रसारक मण्डलस सुधाकरराव नायक इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी नागपुर रोड़ पुसाद - 445 204 डिस्ट्रिक्ट यवातमल	60	2011-2012	निबन्धक संत गादगे अमरावती विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर, अमरावती - 444 602.
51/32-345/06-पी.सी.आई. सिंहद टेक्निकल एजुकेशन सोसायटीज श्रीमती काशीबाई नवाले कॉलेज ऑफ फार्मेसी, एस. नम्बर 40/4-ए, नियर ऑकटोई पोस्ट, कोन्धवा-सस्वाद, कोन्धवा (बी के), पुणे - 411 048.	60	2005-2006 से 2010-2011 तक	निबन्धक पुणे विश्वविद्यालय, गणेशखोण्ड पुणे - 411 007.
52/32-146/97-पी.सी.आई. राजगद ज्ञानपीठस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, भोर, महाद - पन्धारपुर रोड़, बिहाईन्ड भोर पुलिस स्टेशन, ताल्लुक : भोर, डिस्ट्रिक्ट पुणे - 412 206.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
53/32-445/07-पी.सी.आई. मुला एजुकेशन सोसायटीज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सोनाई, ताल्लुक : नेवास, डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर - 414 105.	60	2004-2005 से 2011-2012 तक	- उपरोक्त -
54/32-91/04-पी.सी.आई. मुम्बई एजुकेशनल ट्रस्ट इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी (डिग्री), फोर्थ फ्लोर, एम ई टी कॉम्प्लेक्स, बांदा रिकलेमेसन, बांदा (वैस्ट), मुम्बई - 400 050.	60	2011-2012	निबन्धक मुम्बई विश्वविद्यालय, कलिना, सांताक्रूज, (पू.), फोर्ड, मुम्बई - 400 032.
161/32-346/2006-पी.सी.आई. मनोहरभाई पटेल इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी (बी.फार्म), कुन्दवा गोन्डिया - 441 614.	60	2004-2005 से 2010-2011 तक	निबन्धक दी राष्ट्रसंत तुकाडोजी महाराज, नागपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज प्रशासनिक परिसर, रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग, नागपुर - 440 001.

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
162/32-17/2000-पी.सी.आई. भारती विद्यापीठस, डीमड यूनिवर्सिटी, पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इरांडवाने, पुणे - 411 038.	100 (2009-2010 शै० सत्र से 60 से 100 दाखिलों में वृद्धि)	2014-2015	निबन्धक भारती विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय) पुणे, भारती विद्यापीठ भवन लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, पुणे - 411 030.
226/32-333/2005-पी.सी.आई. सिंहद इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ऑपोजिट श्रीमती काशीबाई नवाले हॉस्पिटल, नारहे रोड, नारहे, पुणे - 411 041.	60	2005-2006 से 2010-2011 तक	निबन्धक पुणे विश्वविद्यालय, गणेशखीण्ड पुणे - 411 007.

उड़ीसा

55/32-154/2006-पी.सी.आई. फार्मास्यूटिकल कॉलेज, सामलेश्वरी विहार, एट - टिंगीपाली, पी.ओ. बारपाली, डिस्ट्रिक्ट बारगढ़ - 768 029.	60	2011-2012	निबन्धक सम्बलपुर विश्वविद्यालय, ज्योति विहार, सम्बलपुर - 768 019. निबन्धक बीजू पटनायक तकनीकी विश्वविद्यालय, राउरकेला, कैम्प एट सी.ई.टी., कलिंगा नगर, नियर घाटिका बेरहमपुर - 760 003.
---	----	-----------	---

पंजाब

56/32-244/06-पी.सी.आई. जी.एच.जी. खालसा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गुरुसर सधार, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना - 141 104.	60	2011-2012	निबन्धक पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, आर.ई.सी. कैम्पस, अमृतसर बाईपास जी.टी. रोड, लाडोवाली रोड, जालंधर - 144 001.
128/32-254/2006-पी.सी.आई. इण्डो-सोवियत फ्रेंडशिप कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जी.टी. रोड, विलेज घाल कलाँ, मोगा - 142 001.	60	2010-2011	- उपरोक्त -
165/32-443/2007-पी.सी.आई. सी टी इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसिज, विलेज शाहपुर, पी.ओ. उदौपुर, वाया जमशेर खास, डिस्ट्रिक्ट जालंधर - 144 020.	60	2004-2005 से 2010-2011 तक	- उपरोक्त -
207/32-354/2006-पी.सी.आई. रयात इन्स्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमा फार्मेसी, रयात इन्स्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, रेलमाजरा, डिस्ट्रिक्ट नवनशहर	60	2011-2012	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
राजस्थान			
57/32-439/07-पी.सी.आई. ज्ञान विहार स्कूल ऑफ फार्मेसी, महल जगतपुरा, जयपुर	60	2003-2004 से 2010-2011 तक	निबन्धक राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर - 302 001.
125/32-414/2007-पी.सी.आई. भूपाल नोबल्स गर्ल्स कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बी.एन. इन्स्टीट्यूटेशन, सेवाश्रम चौराहा, उदयपुर - 313 001.	60	2003-2004 से 2010-2011 तक	निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, बी-1, सवाई रामसिंह मार्ग, ऑपोजिट एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर - 302 001.
227/32-418/2007-पी.सी.आई. श्री बालाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बेनाद रोड़, मचेड़ा, जयपुर - 302 013.	60	2003-2004 से 2010-2011 तक	निबन्धक राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर - 302 001. (2003 से 2006 तक) निबन्धक स्वास्थ्य विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय, बी-1, सवाई रामसिंह मार्ग, ऑपोजिट एस.एम.एस. अस्पताल जयपुर - 302 001. (2006 से और आगे)
तमिलनाडु			
14/32-157/2004-पी.सी.आई. एस.ए. राजा फार्मेसी कॉलेज, राजा नगर, वडाकांगुलम - 627 116 तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट	50	2011-2012	निबन्धक, दी तमिल नाडू डॉ.एम.जी. आर.चिकित्सा विश्वविद्यालय, नं० 69 (पुराना नं० 40), पी.बी.नं० 1200, अन्ना सलाई, ग्यूनडी, चेन्नई - 600 032.
15/32-159/2001-पी.सी.आई. के.एम.सी.एच. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कोवाई इस्टेट, कलापाथी रोड़, कोयम्बटूर - 641 035.	60	2013-2014	- उपरोक्त -
58/32-288/2004-पी.सी.आई. जया कॉलेज ऑफ पैरामैडिकल साइंसेज, सी.टी.एच. रोड़, थिरुनिनरावूर, चेन्नई - 602 024.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
60/32-116/03-पी.सी.आई. शंकरालिंगम भुवनेश्वरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, 3/77-सी, अनाईकुट्टम, (वाया) सिवाकाशी - 626 130, विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट	60	2013-2014	- उपरोक्त -

विषय-वस्तु संख्या/संस्था का नाम मिसिल संख्या	निम्नलिखित संख्या तक दाखिले सीमित	सत्र तक अनुमोदित	परीक्षा प्राधिकरण का नाम
61/32-429/07-पी.सी.आई. आदि भगवान कॉलेज ऑफ फार्मेसी रन्धम विलेज, चैय्यार ताल्लुक टू आरकोट रोड, चैय्यार ताल्लुक, तिरुवन्नामलाई डिस्ट्रिक्ट - 604 407.	60	2006-2007 से 2010-2011 तक	निबंधक, दी तमिल नाडू डॉ.एम.जी. आर.चिकित्सा विश्वविद्यालय, नं० 69 (पुराना नं० 40), पी.बी.नं० 1200, अन्ना सलाई, म्यूनडी, चेन्नई - 600 032.
159/32-64/2008-पी.सी.आई. विनायका मिशंस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, थेरकोड मेन रोड, कोन्डाप्पानेकेनपट्टी, सालेम - 636 008.	100	2011-2012	निबंधक, विनायका मिशंस यूनिवर्सिटी फाउण्डेशन-डीमड यूनिवर्सिटी एन एच-47, संकरी मेन रोड, अरियानूर सालेम - 636 308.

उत्तर प्रदेश

62/32-367/06-पी.सी.आई. के.आई.ई.टी. स्कूल ऑफ फार्मेसी, 13, के.एम. स्टोन, गाजियाबाद-मेरठ रोड, गाजियाबाद - 201 206.	60	2011-2012	निबंधक, उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, आभियान्त्रिक एवं तकनीकी संस्थान परिसर, सीतापुर मार्ग, लखनऊ - 260 021.
168/32-377/2006-पी.सी.आई. एडवांस इन्स्टीट्यूट ऑफ बायोटेक एण्ड पैरामैडिकल साइंसिज, इन फ्रन्ट ऑफ एलिमको, जी.टी. रोड, नारामाड, कानपुर - 209 217.	60	2011-2012	- उपरोक्त -
169/32-269/2009-पी.सी.आई. फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, नोर्दन इण्डिया इंजिनियरिंग कॉलेज सैक्टर-II, डो० अखिलेश दास नगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ	60	2011-2012	- उपरोक्त -
231/32-444/2007-पी.सी.आई. कॉलेज ऑफ फार्मेसी, राजकुमार गोयल इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 5 वां किलोमीटर स्टोन, दिल्ली-मेरठ रोड, गाजियाबाद - 201 003.	60	2004-2005 से 2009-2010 तक	- उपरोक्त -
241/32-478/2008-पी.सी.आई. राजर्षि रानांजय सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी, महाराजा भगवान बक्श सिंह नगर, अमेठी, सुल्तानपुर	60	2004-2005 से 2010-2011 तक	- उपरोक्त -

(2) भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 12 की उपधारा (2) में विहित प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा उपरोक्त परीक्षा प्राधिकरण द्वारा, उपरोक्त सत्र तक आयोजित भेषजी डिग्री परीक्षा को, इस अधिनियम के अधीन भेषजज्ञ के रूप में पंजीकरण के लिए अर्हित होने के प्रयोजनार्थ अनुमोदित परीक्षा घोषित करती है।

अर्चना मुदगल
निबंधक-एवं-सचिव

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

New Delhi-110002, the 27th August 2009

NO. 17-1/2009-PCI/16297-439—The following resolutions passed by the Pharmacy Council of India in its 84th Central Council meeting held on 8th & 9th August, 2009 are published hereunder as required under section 15 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948).

DIPLOMA IN PHARMACY**Resolution No. 84/PCI/1391**

"(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma course in Pharmacy conducted by institutions mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Diploma in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
<u>ANDHRA PRADESH</u>				
16/17-179/2003-PCI K.E.S. Polytechnic (For Women), P.W.D.Grounds, <u>Vijaywada – 520 002.</u>		60	2011-2012	The Secretary, State Board of Tech. Education and Training, B.R.K.R. Building, 7th Floor, Tank Bund Road, <u>Hyderabad – 500 063.</u>
110/17-595/2003-PCI G.Pulla Reddy College of Pharmacy, Mehdipatnam, <u>Hyderabad – 500 028.</u>		60	2011-2012	- do -
184/17-490/1996-PCI Govt. Polytechnic for Women <u>Srikakulam – 532 005.</u>		40	2011-2012	- do -
185/17-588/2003-PCI Adarsa College of Pharmacy, G.Kothapally – 533 285 <u>East Godawari Distt.</u>		60	2011-2012	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
<u>CHHATTISGARH</u>				
1/17-786/2007-PCI School of Pharmacy, Chouksey Engineering College, Lal Khadan, Masturi Road, <u>Bilaspur – 495 004.</u>		60	From 2005-2006 to 2010-2011	The Registrar Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, North Park Avenue, Sector – 8, <u>Bhilai – 490 009.</u>
17/17-752/2006-PCI Royal College of Pharmacy, Behind Pt. R.S. University Campus, Dumar Talab (Mohba Bazar), P.O. – Tatibandh, <u>Raipur – 492 010.</u>		60 (regularize six excess admissions made during 2007- 2008 academic session only) (as approved by 01.081 st Central Council (May,2008)	2010-2011 (as approved by 01.081 st Central Council (May,2008)	The Registrar Pt. Ravishankar Shukla University <u>Raipur – 492 010.</u> <u>(Upto 2004)</u> The Registrar Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, North Park Avenue, Sector – 8, <u>Bhilai – 490 009.</u> <u>(w.e.f. 2005-2006 a.s.)</u>
<u>DELHI</u>				
140/17-376/98-PCI Meerabai Polytechnic, Maharani Bagh, <u>New Delhi - 110 065.</u>		20	2009-2010	The Registrar Board of Technical Education Govt. of Delhi, Muni Maya Marg, Prem Bari Pul, Pitampura Near T.V. Tower <u>Delhi - 110 088.</u>
<u>GUJARAT</u>				
141/17-323/2001-PCI Shantilal Shah Pharmacy College, Bhavnagar University University Campus Gaurishanker Lake Road <u>Bhavnagar – 364 002.</u>		40	2011-2012	The Registrar Bhavnagar University University Campus Gaurishanker Lake Road, <u>Bhavnagar – 364 002.</u> The Registrar Gujarat Technical University 2 nd Floor, ACPC Building, L.D. Engineering College Campus, Navrangpura <u>Ahmedabad – 380 015.</u> <u>(with effect on & from 8th July, 2008).</u>
<u>HIMACHAL PRADESH</u>				
187/17-301/1994 Govt. Polytechnic College, Rohru, Distt. Shimla – 171 207.		40 (Raise in admns. from 30 to 40 from 2007-2008 a.s.)	2011-2012	The Secretary Himachal Pradesh Takiniki Shiksha Board, 287 Civil Line, Dharamshala, <u>Distt. Kangra – 176 215.</u>

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
<u>KARNATAKA</u>				
2/17-138/2006-PCI B.L.D.E. Association College of Pharmacy, Engineering College Campus, Ashram Road, <u>Bijapur – 586 103.</u>		60	2011-2012	The Member Secretary O/o the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road <u>Bangalore – 560 027.</u>
3/17-447/2003-PCI The Oxford College of Pharmacy, C.A. Site No.40, 1 st Phase, J.P. Nagar, <u>Bangalore – 560 078.</u>		60	2011-2012	- do -
19/17-271/2009-PCI SES Pharmacy College, Bellary (Distt.), <u>Siruguppa – 583 121.</u>		60	2011-2012	- do -
20/17-445/2002-PCI Basaveshwara College of Pharmacy, Shantiniketan Educational Campus, Kamthatna Road, Chidri, <u>Distt. Bidar – 585 403.</u>		60	2011-2012	- do -
111/17-18/06-PCI Manipal College of Pharmaceutical Sciences, Manipal University, Madava Nagar, <u>Manipal – 576 104.</u>		120	2011-2012	The Registrar Manipal Academy of Higher Education (Deemed University) University Building, Madhav Nagar, <u>Manipal – 576 104.</u>
188/17-273/2003-PCI Vishwavidya Samsthe's P.B. College of Pharmacy, Sri Padma Complex, Hyderabad Road, <u>Yadgiri – 585 202.</u>		60 (Raise in admns. from 40 to 60 from 2009-2010 a.s.)	2009-2010	The Member Secretary O/o the Board of Examining Authority, III Floor Govt. College of Pharmacy, No.2, Subbaiah Circle, Dr. P. Kalinga Rao Road <u>Bangalore – 560 027.</u>
189/17-466/2002-PCI Acharya & B.M. Reddy College of Pharmacy, Soladevanahalli, Hesaragata Road, Chikkabanawara Post, <u>Bangalore – 560 090.</u>		60	2011-2012	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
<u>KERALA</u>				
21/17-539/2005-PCI Institute of Pharmaceutical Sciences, Trida Bldg., Chalakuzhy Lane, Medical College P.O., <u>Thiruvananthapuram – 695 001.</u>	60	2011-2012	The Chairman, Board of D.Pharm. Examinations, Dte. of Medical Education, C/o College of Pharm. Sciences, P.O. Medical College, <u>Thiruvananthapuram-695 011.</u>	
22/17-518/97-PCI St. Joseph College of Pharmacy, St. Joseph's Hospital, Muttom <u>Cherthala – 688 524.</u>	60	2011-2012	- do -	
190/17-347/2006-PCI Malik Deenar College of Pharmacy, Seethangoli, Bela Post, <u>Kasargod – 671 321.</u>	60	2011-2012	- do -	
191/17-54/97-PCI T.D. Medical College, <u>Alappuzha – 688 005.</u>	40	2011-2012	- do -	
<u>MADHYA PRADESH</u>				
192/17-778/2006-PCI Dr. Shri R.M. Sojatia Institute of Science & Technology (Diploma in Pharmacy), Bhanpura, <u>Distt. Mandsaur – 458 775.</u>	60	From 2005-2006 to 2009-2010	The Registrar, Rajiv Gandhi Proudhyogiki Vishwavidyalaya Airport, Bypass Road, Gandhi Nagar <u>Bhopal – 462 036.</u>	
<u>MAHARASHTRA</u>				
4/17-599/2004-PCI Gourishankar Education Society's, G E S College of Pharmacy (D.Pharm) Limb, Survey No.989, At & Post – Limb, (Pune – Kolhapur Highway), <u>Tal & Dist. Satara – 415 015.</u>	60	2011-2012	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg, Bandra (E) <u>Mumbai – 400 051.</u>	
5/17-806/2007-PCI Krishna Charitable Trust's Krishna College of Pharmacy, Tal. Karad, Distt Satara, <u>Malkapur – 415 110.</u>	60	From 2006-2007 to 2010-2011	- do -	
143/17-654/2004-PCI B.C.Y.R.C's Institute of D.Pharmacy, Opposite Telephone Exchange, Nandanvan, <u>Nagpur – 440 009.</u>	60	2011-2012	- do -	

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
195/17-569/2006-PCI Govt. Polytechnic, Ratnagiri, Near Thiba Palace, <u>Ratnagiri – 415 612.</u>		30	2011-2012	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg, Bandra (E) <u>Mumbai – 400 051.</u>
196/17-533/2002-PCI Yavatmal Zilla Vikas Samiti's Pataldhamal Wadhwani College of Pharmacy, Girija Nagar, Dhamangaon Road, <u>Yavatmal – 445 001.</u>		60	2010-2011	- do -
197/17-816/2007-PCI U.B.K.W.T.'s D. Pharmacy College At Kunjkhedra Post – Rail Tq. Kannad <u>Distt. Aurangabad – 431 103.</u>		60	From 2006-2007 to 2010-2011	- do -
198/17-640/2004-PCI Jamia College of Pharmacy, Molgi Road, Jamia Islamia Ishant Uloom, <u>Distt. Nandurbar – 425 415.</u>		60	2011-2012	- do -
199/17-826/2008-PCI Shree Gurudatta Shikshan Sanstha's College of Pharmacy, Manur, Tal : Kalwan, <u>Distt. Nashik – 423 501.</u>		60	From 2006-2007 to 2010-2011	- do -
201/17-819/2007-PCI Maharashtra Institute of Pharmacy (D.Pharm), Armori Road, Chougan Fata Bramhapuri, <u>Distt. Chandrapur – 441 206.</u>		60	From 2006-2007 to 2010-2011	- do -
202/17-815/2007-PCI Jankalyan Vikas Mandal's Swargiya Lilawati Satish Award D.Pharmacy College, Hokarna Tanda, <u>Kukhed, Distt. Nanded.</u>		60	From 2006-2007 to 2010-2011	- do -
203/17-817/2007-PCI Jayawantrao Sawant Institute of Pharmacy, Sr. No.58, Indrayani Nagar, Handewadi Road, Hadapsar, <u>Pune – 58.</u>		60	From 2006-2007 to 2010-2011	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
243/17-893/2009-PCI College of Pharmacy, Post Box No.23, Udgir – 413 517 <u>Distt. Latur,</u>		as below	Only 1993-94 admitted batch.	The Secretary, Maharashtra State Board of Technical Education Govt. Polytechnic Building, III Floor, 49, Kherwadi, Ali Yawar Jung Marg, Bandra (E) <u>Mumbai – 400 051.</u>

- To approve the 19 students of 1993-94 admitted batch of the D.Pharm course as per following details -

<u>Sr. No.</u>	<u>Seat No.</u>	<u>Name of the Student</u>	<u>Father's Name</u>	<u>University Registration No. / Enrollment No. of M.S.B.T.E</u>
01	288011	Yeotikar Gousmohidin	Osmansab	93627498
02	622289	Mohsin Ahmed	Eshan Ahmed	93627415
03	638741	Maid Anil	Balkrishna	93627685
04	635664	Labhshetwar Abhijit	Arvind	93627531
05	635661	Chamle Nitin	Nagnath	93627464
06	635682	Siddiqui Mohd. Quisar	Abdul Malik	93627827
07	635659	Jadhav Narsing	Govindrao	93627424
08	623923	Bhosale Santosh	Govindrao	93627602
09	623918	Tamboli Jabbar	Hydersab	93627451
10	623926	Patil Ravindra	Amrutrao	93627630
11	622292	Kokadwar Rahul	Shriramrao	93627649
12	622300	Chattalwar Mangrani	Gopalkrishna	93627895
13	622294	Bhosale Krishna	Digamberrao	93627747
14	288008	Sondare Satish	Nivrutirao	93627624
15	288007	Chandole Dinesh	Vasantrao	93627611
16	643546	Bhalkikar Sanjeevekumar	Govindrao	93627362
17	643545	Mohammed Abdul Samad	Md. Abdul Rasheed	93627350
18	643549	Ayya Govind	Laxmikant	93627406
19	643559	Chidrewar Anil	Bhagwatrao	93627522

ORISSA

205/17-667/2005-PCI Kalinga Institute of Pharmaceutical Sciences (KIPS), At Nuasahi, Near City Clinic, P.O. Balia, <u>Distt. Balasore - 756 056.</u>	60	2010-2011	The Member-Secretary, Orissa State Board of Pharmacy, (Directorate of Drugs Control Building), P.O. Mancheswar, Railway Colony, <u>Bhubaneswar – 751 017.</u>
---	----	-----------	---

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
<u>PUNJAB</u>				
113/17-803/2004-PCI V.M.S. College of Pharmacy, Amritsar Road, Batala – 143 505 <u>Distt. Gurdaspur.</u>		60	2011-2012	The Secretary Punjab State Board of Technical Education & Industrial Training Plot No.1-A, Sector 36-A, <u>Chandigarh.</u>
207/17-616/2004-PCI Rayat Institute of Diploma Pharmacy, Rayat Institute of Pharmacy, Railmajra <u>Distt. Nawanshahr.</u>		60	2011-2012	- do -
242/17-327/2006-PCI Akai College of Diploma Pharmacy, Gursagar, Mastuana Sahib, <u>Distt. Sangrur – 148 001.</u>		60	From 2005-2006 to 2010-2011	- do -

WEST BENGAL

212/17-549/99-PCI Cooch Behar Polytechnic, Keshab Road, P.O. & Distt. <u>Cooch Behar – 736 101.</u>	40	2010-2011	The Secretary, West Bengal State Council for Technical Education, “Kolkata Karigori Bhavan” 2 nd Floor, 110, S.N. Banerjee Road, <u>Kolkata – 700 013.</u>
---	----	-----------	--

(2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Diploma Examination in Pharmacy held by the above mentioned Examining Authorities, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act.”

DEGREE IN PHARMACY**Resolution No. 84/PCI/1392**

“(1) In pursuance of the provisions of sub section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree course in Pharmacy conducted by institutions mentioned below to be an approved course of study for the purpose of admission to an approved examination for Degree in Pharmacy in respect of number of students and academic session as specified here under :

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
<u>ANDHRA PRADESH</u>				
6/32-343/2009-PCI Chalapathi Institute of Pharmaceutical Science, Chalapathi Nagar, Lam, <u>Guntur – 522 034.</u>		60	2011-2012	The Registrar Acharya Nagarjuna University Nagarjuna Nagar <u>Guntur – 522 510.</u>

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
28/32-375/06-PCI GIET School of Pharmacy, NH – 5, Chaitanya Nagar, <u>Rajahmundry.</u>		60	2011-2012	The Registrar Andhra University, Waltair, <u>Visakhapatnam - 530 063.</u>
110/32-155/1998-PCI G.Pullu Reddy College of Pharmacy, Mehdipatnam, <u>Hyderabad – 500 028.</u>		60	2011-2012	The Registrar Osmania University <u>Hyderabad-500 007.</u>
145/32-368/2006-PCI Gokaraju Rangaraju College of Pharmacy, Bachupally, <u>Hyderabad – 500 072.</u>		60	2011-2012	- do -
146/32-370/2006-PCI Malla Reddy Institute of Pharmaceutical Sciences, Maisammaguda, Dhullapally, Post Via Hakimpet <u>Secunderabad – 500 014.</u>		60	From 2005-2006 to 2010-2011	The Secretary Jawaharlal Nehru Technological University, Kukatpally <u>Hyderabad – 500 072.</u>
<u>CHHATTISGARH</u>				
1/32-449/2008-PCI School of Pharmacy, Chouksey Engineering College, Lal Khadan, Masturi Road, <u>Bilaspur – 495 004.</u>		60	From 2004-2005 to 2010-2011	The Registrar Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, North Park Avenue, Sector – 8, <u>Bhilai – 490 009.</u>
<u>GUJARAT</u>				
32/32-440/07-PCI C.U. Shah College of Pharmacy & Research, Surendranagar Ahmedabad Highway, Opp.IBP Petrol Pump, Wadhwan City – 363 030, <u>Distt. Surendranagar.</u>		60	From 2004-2005 to 2010-2011	The Secretary Saurashtra University, Kalavad Road, <u>Rajkot – 360 005.</u> The Secretary Gujarat Technological University 2 nd Floor, ACPC Building, Navrangpura <u>Ahmedabad – 380 015.</u> (with effect on and from 8th July, 2008)
214/32-431/2009-PCI Ramanbhai Patel College of Pharmacy, (Charutar Institute of Pharmacy), At & Post : Changa – 388 421, Tal : Petled, <u>Distt. Anand.</u>		60	From 2004-2005 to 2010-2011	The Secretary Gujarat University, Navrangpura] <u>Ahmedabad – 380 009.</u> The Secretary Gujarat Technological University 2 nd Floor, ACPC Building, Navrangpura <u>Ahmedabad – 380 015.</u> (with effect on and from 8th July, 2008)

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
215/32-260/2003-PCI Rofel Shri G.M. Bilakhia College of Pharmacy, "Rofel Campus" Vapi – Namdha Road, P.B.No.11, <u>Vapi (West) – 396 191.</u>		60	2010-2011	The Registrar Veer Narmad South Gujarat University, University Campus, Udhana-Madalla Road, <u>Surat – 395 007.</u> The Secretary Gujarat Technological University 2 nd Floor, ACPC Building, Navrangpura <u>Ahmedabad – 380 015.</u> (with effect on and from 8 th July, 2008)
<u>KARNATAKA</u>				
2/32-185/2004-PCI B.L.D.E. Association College of Pharmacy, Engineering College Campus, Ashram Road, <u>Bijapur – 586 103.</u>		60	2011-2012	The Registrar, Rajiv Gandhi Univ. of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, <u>Bangalore – 560 041.</u>
3/32-83/2006-PCI The Oxford College of Pharmacy, C.A. Site No.40, 1 st Phase, J.P. Nagar, <u>Bangalore – 560 078.</u>		60	2011-2012	- do -
8/32-67/95-PCI National college of Pharmacy, Balaraja Urs Road, <u>Shimoga – 577 201.</u>		60	2011-2012	- do -
9/32-60/2006-PCI NGSM Institute of Pharmaceutical Sciences, 3 rd Cross Vivekananda Road, Nanthoor, <u>Mangalore – 575 005.</u>		80	2011-2012	- do -
10/32-59/2002-PCI Dr. H.L.T. College of Pharmacy, Kengal, Channapatna, <u>Bangalore – 571 502.</u>		60	2011-2012	- do -
34/32-48/06-PCI Maratha Mandal's, College of Pharmacy, 1007, Malmaruti Extension, <u>Belgaum – 590 016.</u>		40	2011-2012	- do -
35/32-87/01-PCI K.L.E Society's, College of Pharmacy, Vidyanagar, <u>Hubli – 580 031.</u>		60	2011-2012	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
37/32-141/07-PCI Sri K.V. College of Pharmacy, M.G. Road, Distt. Kolar, <u>Chickballapur – 562 101.</u>		60	2011-2012	The Registrar, Rajiv Gandhi Univ. of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, <u>Bangalore – 560 041.</u>
38/32-310/05-PCI Sarada Vilas College of Pharmacy, Krishnamurthypuram, <u>Mysore – 570 004.</u>		60	2011-2012	- do -
39/32-51/99-PCI St. John's Pharmacy College, No.6, 9 th Cross, 2 nd Main, Vijayanagar 2 nd Stage, <u>Bangalore Distt. – 560 040.</u>		60	2011-2012	- do -
118/32-94/2006-PCI C.N.K. Reddy College of Pharmacy, # 26, 1 st Main Vijayanandanagar, Near Police Quarters, Nandini Layout, <u>Bangalore – 560 060.</u>		60	2011-2012	- do -
121/32-82/99-PCI H.K.E. Society's College of Pharmacy, Mahadevappa, Rampure Road, <u>Gulbarga – 585 105.</u>		60	2011-2012	- do -
150/32-77/2003-PCI Sri Sidhaganga Education Society's Sri Sidhaganga College of Pharmacy, B.H. Road, <u>Tumkur – 572 101.</u>		60	2011-2012	- do -
151/32-306/2005-PCI Srinivas College of Pharmacy, Valachil, Fragipete Post, <u>Mangalore – 572 101.</u>		60	2011-2012	- do -
152/32-419/2007-PCI K.L.E. Society's College of Pharmacy, Ankola, <u>Uttara Kannada – 581 314.</u>		60	From 2005-2006 to 2010-2011	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
153/32-160/2006-PCI Nargund College of Pharmacy, Dattatreya Nagar, 2nd Main, 100 Ft. Road, Ring Road, B.S.K. 3rd Stage, <u>Bangalore – 560 085.</u>		60	2011-2012	The Registrar, Rajiv Gandhi Univ. of Health Sciences, Karnataka, 4th 'T' Block, Jayanagar, <u>Bangalore – 560 041.</u>
154/32-301/2005-PCI Karnataka College of Pharmacy, Hagde Nagar Main Road, <u>Bangalore – 560 064.</u>		60	2011-2012	- do -
189/32-191/99-PCI Acharya & B.M. Reddy College of Pharmacy, Soladevanahalli, Hesaragata Road, Chikkabanawara Post, <u>Bangalore – 560 090.</u>		60	2011-2012	- do -
217/32-561/2009-PCI East Point College of Pharmacy, # 147, Bidarahalli, Virgonagar Post, <u>Bangalore – 560 049.</u>		60	From 2004-2005 to 2010-2011	- do -
218/32-348/2006-PCI K.L.E. Society's College of Pharmacy, (J.T. College Campus), Post Box No. 23, <u>Gadag – 582 101.</u>		60	From 2004-2005 to 2010-2011	- do -
<u>KERALA</u>				
155/32-304/2009-PCI The Dale View College of Pharmacy & Research Centre, Punalal P.O., Via Poovachal, <u>Thiruvananthapuram – 695 575.</u>		60	2011-2012	The Registrar Kerala University, Palayam <u>Thiruvananthapuram-695 001.</u>

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
156/32-349/2006-PCI Nazareth College of Pharmacy, Othera P.O., Thiruvalla, <u>Kerala – 689 546.</u>		60	2011-2012	The Registrar Mahatma Gandhi University Priyadarshani Hills P.O. Athirampuzha <u>Kottayam – 686 560.</u>
157/32-319/2005-PCI Nirmala College of Pharmacy, Muvattupuzha, <u>Ernakulam Distt. – 686 661.</u>		60	2011-2012	- do -
190/32-300/2005-PCI Malik Deenar College of Pharmacy, Seethangoli, Bela Post, <u>Kasargod – 671 122.</u>		60	2011-2012	The Registrar Kannur University, Mangattu Parambu, Kalliasseri <u>Kannur – 670 562.</u>
221/32-14/99-PCI College of Pharmaceutical Sciences, Medical College, <u>Thiruvananthapuram – 695 011.</u>		60	2013-2014	The Registrar Kerala University, Palayam, <u>Thiruvananthapuram–695 575.</u>
222/32-448/2008-PCI Rajiv Gandhi Institute of Pharmacy, Miliyat (P.O.), Trikaripur, <u>Kasaragod (District) – 671 301.</u>		60	From 2006-2007 to 2010-2011	The Registrar Kannur University, Mangattu Parambu, Kalliasseri <u>Kannur – 670 562.</u>
223/32-298/2005-PCI St. James College of Pharmaceutical Sciences, St. James Medical Academy, River Bank, <u>Chalakydy – 680 307.</u>		60	2011-2012	The Registrar University of Calicut, Calicut University Post, Thenhipalam, <u>Distt. Malapuram – 673 635.</u>
<u>MADHYA PRADESH</u>				
116/32-396/2007-PCI Mandsaur Institute of Pharmacy, Near MIT Campus, Rewas-Dewda Road, <u>Mandsaur – 458 001.</u>		60	From 2004-2005 to 2009-2010	The Registrar, Rajiv Gandhi Proudhyogiki Vishwavidyalaya Airport, Bypass Road, Gandhi Nagar, <u>Bhopal – 462 036.</u>
117/32-397/2007-PCI Shri Ram Institute of Technology, B.Pharmacy, ITI Madhotal, <u>Jabalpur – 482 002.</u>		60	From 2003-2004 to 2010-2011	The Registrar, Rajiv Gandhi Proudhyogiki Vishwavidyalaya Airport, Bypass Road, Gandhi Nagar, <u>Bhopal – 462 036.</u>

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
224/32-286/2004-PCI GRY Institute of Pharmacy, Vidya Vihar, Borawan, <u>Khargone – 451 228.</u>		60	2011-2012	The Registrar, Rajiv Gandhi Proudhyogiki Vishwavidyalaya Airport, Bypass Road, Gandhi Nagar, <u>Bhopal – 462 036.</u>
253/32-415/2007-PCI School of Pharmacy, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Takshashila Campus, Ring Road, <u>Indore – 452 017.</u>		60	From 2001-2002 to 2008-2009	The Registrar, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Ravindranath Tagore Road <u>Indore – 452 017.</u>
<u>MAHARASHTRA</u>				
11/32-57/2007-PCI Sharad Pawar College of Pharmacy, Wanadongri, Higna Road, <u>Nagpur – 441 110.</u>		60	2011-2012	The Registrar, The Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Chhtrapati Shivaji Maharaj, Administrative Premises, Ravindranath Tagore Marg, <u>Nagpur – 440 001.</u>
12/32-135/2004-PCI D.S.T.S. Mandal's College of Pharmacy, 1, Jule solapur, Bijapur Road, <u>Solapur – 413 004.</u>		60	2011-2012	The Registrar, Solapur University, Solapur Solapur-Pune Highway, Kegaon <u>Solapur – 413 255.</u>
43/32-421/07-PCI Rajaramprabapu College of Pharmacy, Kasegaon, Tal. Walwa, <u>Distt. Sangli – 415 404.</u>		60	From 2005-2006 to 2010-2011	The Registrar, Shivaji University, Vidyanagar <u>Kolhapur – 416 001.</u>
45/32-270/06-PCI SCSSS's Sitabai Thite College of Pharmacy, Behind Hudco Colony, Pune-Nagar, By Pass, A/P – Shirpur (Ghodnadi), <u>Distt. Pune – 412 210.</u>		60	2010-2011	The Registrar, University of Pune Ganeshkhind <u>Pune – 411 007.</u>
46/32-271/06-PCI Shri Neminath Jain Brahmacharyashram's (Jain Gurukul), Shiriman Sureshdad Jain College of Pharmacy (Degree), Neminagar, <u>Distt. Sangli. – 415 404.</u>		60	2011-2012	- do -
47/32-203/03-PCI Smt. Kishoritai Bhoyar College of Pharmacy, Behind Railway Station, New Kamptee, <u>Dist. Nagpur – 441 002.</u>		60	2011-2012	The Registrar, The Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Chhtrapati Shivaji Maharaj, Administrative Premises, Ravindranath Tagore Marg, <u>Nagpur – 440 001.</u>

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
48/32-18/04-PCI Department of Pharmaceutical Science, Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Mahatma Jyotiba Fuley Shaikshanik Parisar, Amravati Road, <u>Nagpur – 440 003.</u>		60	2013-2014	The Registrar, The Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Chhtrapati Shivaji Maharaj, Administrative Premises, Ravindranath Tagore Marg, <u>Nagpur – 440 001.</u>
49/32-134/04-PCI Bharati Vidyapeeth's College of Pharmacy, Sector – 8, C.B.D. <u>Navi Mumbai – 400 614.</u>		60	2013-2014	The Registrar, University of Mumbai, Kalina, Santacruz (E) Fort, <u>Mumbai – 400 032.</u>
50/32-50/2006-PCI Janata Shikshan Prasarak Mandal's Sudhakar Rao Naik Institute of Pharmacy, Nagpur Road, Pusad – 445 204 <u>Distt. Yavatmal.</u>		60	2011-2012	The Registrar, Sant Gadge Baba Amravati University Tapovan Road, <u>Amravati – 444 602.</u>
51/32-345/06-PCI Singhad Technical Education Society's, Smt. Kashibai Navale College of Pharmacy, S.No.40/4-A, Near Octroi Post, Kondhwa-saswad, Kondhwa (Bk.), <u>Pune – 411 048.</u>		60	From 2005-2006 to 2010-2011	The Registrar, University of Pune Ganeshkhind <u>Pune – 411 007.</u>
52/32-146/97-PCI Rajgad Dnyanpeeth's College of Pharmacy, Bhore, Mahad – Pandharpur Road, Behind Bhore Police Station, Tal : Bhore, <u>Dist.Pune – 412 206.</u>		60	2011-2012	- do -
53/32-445/07-PCI Mula Education Society's College of Pharmacy, Sonai, Tal:Newas, <u>Distt. Ahmednagar – 414 105.</u>		60	From 2004-2005 to 2011-2012	- do -
54/32-91/04-PCI Mumbai Educational Trust, Institute of Pharmacy (Degree), 4 th Floor, MET Complex, Bandra Reclamation, Bandra (W), <u>Mumbai – 400 050.</u>		60	2011-2012	The Registrar, University of Mumbai, Kalina, Santacruz (E) Fort, <u>Mumbai – 400 032.</u>

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
161/32-346/2006-PCI Manoharbhair Patel Institute of Pharmacy, (B.Pharm), Kundwa, <u>Gondia – 441 614.</u>		60	From 2004-2005 to 2010-2011	The Registrar, The Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University, Chhtrapati Shivaji Maharaj, Administrative Premises, Ravindranath Tagore Marg, <u>Nagpur – 440 001.</u>
162/32-17/2000-PCI Bharti Vidyapeeth Deemed University, Poona College of Pharmacy, Erandawane, <u>Pune - 411 038.</u>		100 (Raise in adms. from 60 to 100 from 2009-2010 a.s.)	2014-2015	The Registrar, Bharti Vidyapeeth's (Deemed University) Pune, Bharti Vidyapeeth Building Lal Bahadur Shastri Marg, <u>Pune - 411 038.</u>
226/32-333/2005-PCI Sinhgad Institute of Pharmacy, Off Smt. Kashibai Navale Hospital, Narhe Road, Narhe, <u>Pune – 411 041.</u>		60	From 2005-2006 to 2010-2011	The Registrar University of Pune, Ganeshkhind <u>Pune – 411 007.</u>
<u>ORISSA</u>				
55/32-154/2006-PCI Pharmaceutical College, Samaleswari Vihar, At-Tingipali, P.O.Baripali, <u>Distt.Baripali – 768 029.</u>		60	2011-2012	The Registrar, Sambalpur University Jyothi Vihar, <u>Sambalpur – 768 019.</u> The Registrar, Biju Patnaik University of Technology, Roukela, Camp at C.E.T., Kalinga Nagar Near Ghatika <u>Berhampur – 760 003.</u>
<u>PUNJAB</u>				
56/32-244/06-PCI G.H.G. Khalsa College of Pharmacy, Gurusar Sadhar, <u>Distt.Ludhiana – 141 104.</u>		60	2011-2012	The Registrar, Punjab Technical University REC Campus, Amritsar Bypass, G.T. Road, Ladowali Road, <u>Jalandhar – 144 001.</u>
128/32-254/2006-PCI Indo-Soviet Friendship College of Pharmacy, G.T. Road, Vill. Ghal Kalan, <u>Moga – 142 001.</u>		60	2010-2011	- do -

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
165/32-443/2007-PCI CT Instt. of Pharmaceutical Scs., Vill. Shahpur, P.O. Udopur, Via Jamsheer Khas, <u>Distt. Jalandhar – 144 020.</u>		60	From 2004-2005 to 2010-2011	The Registrar, Punjab Technical University REC Campus, Amritsar Bypass, G.T. Road, Ladowali Road, <u>Jalandhar – 144 001.</u>
207/32-354/2006-PCI Rayat Institute of Diploma Pharmacy, Rayat Institute of Pharmacy, Railmajra <u>Distt. Nawanshahr.</u>		60	2011-2012	- do -
<u>RAJASTHAN</u>				
51/32-439/07-PCI Gyan Vihar School of Pharmacy, Mahal Jagatpura, <u>Jaipur.</u>		60	From 2003-2004 to 2010-2011	The Registrar University of Rajasthan <u>Jaipur – 302 001.</u>
125/32-414/2007-PCI Bhupal Noble's Girls' College of Pharmacy, B.N. Institution, Seva Shram Chouraha, Udaipur, <u>Udaipur – 313 001.</u>		60	From 2003-2004 to 2010-2011	The Registrar Rajasthan University of Health Sciences, B-1, Sawai Ramsingh Road, Opp. S.M.S. Hospital <u>Jaipur – 302 001.</u>
227/32-418/2007-PCI Sri Balaji College of Pharmacy, Benad Road, Macheda, <u>Jaipur – 302 013.</u>		60	From 2003-2004 to 2010-2011	The Registrar University of Rajasthan <u>Jaipur – 302 001.</u> (From 2003 to 2006)
				The Registrar Rajasthan University of Health Sciences, B-1, Sawai Ramsingh Road, Opp. S.M.S. Hospital <u>Jaipur – 302 001.</u> (From 2006 onwards)
<u>TAMIL NADU</u>				
14/32-157/2004-PCI S.A. Raja Pharmacy College, Raja Nagar, Vadakangulam – 627 116 <u>Tirunelveli Distt.</u>		50	2011-2012	The Registrar, The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, No.69 (Old No.40), P.B. No.1200, Anna Salai, Guindy, <u>Chennai – 600 032.</u>
15/32-159/2001-PCI K.M.C.H. College of Pharmacy Kovai Estate, Kalapathi Road, <u>Coimbatore – 641 035.</u>		60	2013-2014	-do-

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
58/32-288/04-PCI Jaya College of Paramedical Sciences, College of Pharmacy, C.T.H. Road, Thiruninravur <u>Chennai – 602 024.</u>		60	2011-2012	The Registrar, The Tamil Nadu Dr. M.G.R. Medical University, No.69 (Old No.40), P.B. No.1200, Anna Salai, Guindy, <u>Chennai – 600 032.</u>
60/32-116/03-PCI Sankaralingam Bhuwaneswari, College of Pharmacy, 3/77-C, Anaikuttam, (Via) Savakasi – 626 130, <u>Virudhunagar Distt.,</u>		60	2013-2014	-do-
61/32-429/07-PCI Aadhi Bhagawan College of Pharmacy Rantham Village, Cheyyar to Arcot Road, Cheyyar Tk, Thiruvannamalai <u>Distt. – 604 407.</u>		60	From 2006-2007 to 2010-2011	-do-
159/32-64/2008-PCI Vinayaka Mission's College of Pharmacy Yercaud Main Road, Kondappanaickenpatty <u>Salem – 636 008.</u>		100	2011-2012	The Registrar, Vinayaka Mission's Research Foundation- Deemed University, NH-47, Sankari Main Road, Ariyanoor, <u>Salem – 636 308.</u>
<u>UTTAR PRADESH</u>				
62/32-367/06-PCI KIET School of Pharmacy, 13, KM Stone, Ghaziabad-Meerut Road, <u>Ghaziabad – 201 206.</u>		60	2011-2012	The Registrar Uttar Pradesh Technical University, Institute of Engineering & Technology Campus, Sitapur Road, <u>Lucknow – 260 021.</u>
168/32-377/2006-PCI Advance Institute of Biotech & Paramedical Sciences, In front of ALIMCO, G.T. Road, Naramau, <u>Kanpur – 209 217.</u>		60	2011-2012	-do-
169/32-269/2009-PCI Faculty of Pharmacy, Northern India Engineering College Sector – II, Dr. Akhilesh Das Nagar, Faizabad Road, <u>Lucknow.</u>		60	2011-2012	-do-

<u>Item No./ File No.</u>	<u>Name of institutions</u>	<u>For admissions Limited to</u>	<u>Approved upto Academic session</u>	<u>Name of the Examining Authority</u>
231/32-444/2007-PCI College of Pharmacy, Rajkumar Goel Institute of Technology, 5 th Km. Stone, Delhi-Meerut Road, <u>Ghaziabad – 201 003.</u>		60	From 2004-2005 to 2009-2010	The Registrar Uttar Pradesh Technical University, Institute of Engineering & Technology Campus, Sitapur Road, <u>Lucknow – 260 021.</u>
241/32-478/2008 Rajarshi Rananjay Sinh College of Pharmacy, Maharaja Bhagwan Baksh Sinh Nagar, Amethi, <u>Sultanpur.</u>		60	From 2004-2005 to 2010-2011	-do-

2) In pursuance of the provisions of sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India declares the Degree Examination in Pharmacy held by the above mentioned Examining Authorities, during the session mentioned above to be an approved examination for the purpose of qualifying for registration as a Pharmacist under the said Act.”

ARCHNA MUDGAL
Registrar-cum-Secretary